

Dated: 04.09.2024

General Manager,
Deptt of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Ltd.
PJ Tower, 25<sup>th</sup> Floor,
Dalal Street
Mumbai-400001

Sub: Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publication of Notice convening the 1<sup>st</sup> Annual General Meeting of the company scheduled to be held on 30<sup>th</sup> September, 2024 as published in Business Standard (English and Hindi) prior to dispatch of notices to shareholders in due compliance with the MCA and SEBI circulars.

This is for your information and records please.

Yours truly

**EMMFORCE AUTOTECH LIMITED** 

Ashok Mehta Digitally signed by Ashok Mehta Date: 2024.09.04 13:07:15 +05'30'

(ASHOK MEHTA)

**MANAGING DIRECTOR** 

DIN: 00058188



कुल ७ मेगावॉट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिला रुचि पत्र ₹ 886.3 पिछला बंद भाव ₹ 889.4 आज का बंद भाव

0.3 %

Aug 2024 Sep Sep

रामकृष्ण फोर्जिंग्स जमशेदपुर में एल्युमीनियम फोर्जिंग इकाई स्थापित करने के लिए मिली मंजूरी ₹ 956.7 पिछला बंद भाव ₹ 977.7 आज का बंद भाव

Aug 2024 Sep Sep

केफिन टेक्नोलॉजिज 1,250 वेल्थ मैनेजमेंट में बदलाव के लिए एमपावर वेल्थ प्लेटफॉर्म 1,150 पेश किया ्र<sup>1,050</sup> **₹ 1023.9** पिछला बंद भाव 1,023.9 ₹ 1012.1 आज का बंद भाव 950

**-1.2 %** ▼

जेनसोल इंजीनियरिंग

<sub>970</sub> 164 करोड़ रु की परियोजना के लिए कंसोर्टियम ने लगाई सबसे कम बोली ₹ 942.0 पिछला बंद भाव 943.7-<sub>925</sub> **₹ 943.7** आज का बंद भाव 0.2 %

# संक्षेप में

# ब्रिगेड एंटर. जुटाएगी 1,500 करोड़ रुपये

बेंगलुरु स्थित ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने कारोबार विस्तार की अपनी रणनीति के तहत संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर 1.500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी ने धन जुटाने के लिए 2 सितंबर को पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) जारी किया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने सोमवार देर रात शेयर बाजार को दी सुचना में बताया कि निदेशकों की एक समिति ने सोमवार को क्युआईपी निर्गम की अनुमति दे दी है। समिति ने क्युआईपी के लिए 1,164.70 रुपये प्रति शेयर के 'फ्लोर प्राइस' को भी मंजूरी दे दी। ब्रिगेड एंटरप्रा-इजेज ने मार्च में 1,500 करोड़ रुपये तक की प्रतिभूतियां जारी कर धन जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी ली थी।

# फाडा के ग्राहक अनुभव सूचकांक में किया व ऑडी शीर्ष स्थान पर

नई दिल्ली, 3 सितंबर

🛖 क्षिण कोरिया की कार विनिर्माता किया को आज संपूर्ण ग्राहक 🕻 अनुभव सुचकांक ( सीईआई) में व्यापक बाजार श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनी के रूप में घोषित किया गया। सीईआई फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) द्वारा बिक्री, उत्पाद और बिक्री के बाद की गुणवत्ता से संबंधित 97 मापदंडों पर ग्राहक अनुभव की मात्रा और उनका आकलन करने के लिए किया जाने वाला वार्षिक सर्वेक्षण है।

एन.पी.ए की

परामर्श कंपनी फ्रॉस्ट सुलिवन के साथ मिलकर 8,685 उत्तरदाताओं के साथ यह सर्वेक्षण है। फाडा अकादमी और अनसंधान KLA MOTORS T

के चेयरमैन विंकेश गुलाटी ने संवाद-दाताओं से कहा कि कारों में सुविधाएं अब 'दी हुई होती' हैं और जब ग्राहक संतुष्टि की बात आती है, तो उनका आकर्षण सीमित रहता है। उन्होंने कहा 'कारों में सुविधाएं दी हुई होती हैं। ग्राहक बुनियादी चीजें चाहते हैं। एक अच्छा वाहन, सेवा, रीसेल वॅल्य, ग्राहक के रूप में सम्मान और महत्व ऐसी चीजें हैं, जो वे

ने नीचे वर्णित संपत्ति का 31 अगस्त, 2024 को कब्जा (सांकेतिक) ले लिया है।

उन्होंने कहा 'कंपनियां कैफे टाइप एरिना, स्टिमुलेटर वगैरह के साथ एक बड़ा शोरूम बना रही हैं, जबकि ये चीजें वह नहीं हैं, जो वह चाहता है। वह ऐसा आधार चाहता है जो उनके वाहन खरीदने के फैसले, वाहन सर्विस के फैसले और उत्पाद की जरूरतों का समर्थन करे।' जहां किया व्यापक बाजार श्रेणी में

सीईआई की शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रही, वहीं ऑडी लक्जरी श्रेणी में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी रही। टोयोटा, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्य एमजी मोटर्स और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने व्यापक बाजार श्रेणी में दूसरे और पांचवें स्थान के बीच अपनी जगह बनाई। भारत की सबसे बडी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी सीईआई सूचकांक में छठे स्थान पर रही।

उपभोक्ता कसौटी

किया इंडिया ने व्यापक बाजार

ग्राहक अनुभव सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया

उत्तरदाताओं के नमूना आकार के

■ यात्री वाहन श्रेणी में बिक्री, बिक्री

आकलन करना था इसका उद्देश्य

■ इस सूचकांक को 8,685

आधार पर तैयार किया गया

के बाद सेवा और उत्पाद की

गुणवत्ता में ग्राहक अनुभव का

श्रेणी और ऑडी ने लक्जरी श्रेणी में

स्विट्जरलैंड की सिन्जेंटा की भारत में लंबे समय से दमदार मौजूदगी रही है। संजीव मुखर्जी के साथ बातचीत में कंपनी के मुख्य कार्य अ धिकारी जेफ रोव ने कंपनी की कुछ विकास योजनाओं के बारे में बताया। प्रमुख अंश ...

भारत में आपकी मौजुदगी काफी विविध है, क्या आप यहां विनिर्माण करते हैं? हमारे पास थर्ड-पार्टी वाला विनिर्माण कार्य है। हम फॉर्मूलेशन करते हैं, हम कुछ प्रजनन कार्य करते हैं। हमारे पास कुछ इकाइयां हैं. लेकिन हमारा उद्योग बहत ही स्थानीय है। हमें वैश्विक मौजदगी और वैश्विक नेटवर्क बनाना होगा और हमें स्थानीय किसानों के लिए भी प्रासंगिक होना होगा।

'मेक इन इंडिया' के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आपके कुछ सहयोगियों ने कल एक कार्यक्रम में इसके बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित

कर रहे हैं। हम यहां थर्ड-पार्टी विनिर्माण करते हैं। फॉर्मलेशन करते हैं। हम यहां पौधों का प्रजनन करते हैं। उनका चयन करते हैं। हम कुछ बीज उत्पादन भी करते हैं। इसलिए भारत में मेड-इन-इंडिया के मामले में हमारी पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण मौजुदगी है। अब निश्चित रूप से हम बड़ी कंपनी हैं। हमारे पास बहुत सी अलग-अलग आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं। इसलिए हम भारत में आयात भी कर रहे हैं। इसलिए यह आयात और मेड-इन-इंडिया का संयोजन है।

तो क्या आप भारत में मेक-इन-इंडिया वाले हिस्से को बढाने की योजना बना रहे हैं?

हां, मेरा मतलब है कि जैसे-जैसे कारोबार बढ़ता है, यह सामान्य बात है कि मौजूदगी और विनिर्माण भी बढ़ना चाहिए और यह वह प्रवित है जो हमें दोबारा दिख रही है. खास तौर पर सक्रिय अवयवों के विनिर्माण और फसल सुरक्षा में। हम देख रहे हैं कि भारत बहुत अधिक महत्वपूर्ण विनिर्माता बन

## यूको बैंक 倒 UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय — II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 3 और 4. डीडी ब्लॉक. सेक्टर —1. साल्ट लेक. कोलकाता—70006

यको बैंक जेम पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित मदों के लिए निविदाएँ आमंत्रित करता है:-.. १ ओम्नी चैनल बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता का चयन ।

2. केंद्रीकृत डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता का चयन। विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com और https://gem.gov.ir वेबसाइट पर देखें।

(सहायक-महाप्रबंधक) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

कर्जदाता (ओं) का नाम

| कर्ज खाता क्र. HHEYAM00001158

काननी उत्तराधिकारी)

मनविंदर कौर (सह-उधारकर्ता,

स्वर्गीय रमिंदर सिंह की पत्नी और

(अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

गिरवी संपत्ति(यों)

का विवरण

पोपर्टी नंबर - 1

प्रोपर्टी नंबर बी-9 / 1338, क्षेत्रफल

जगाधरी वर्कशॉप, यमुना नगर -

दुकान नंबर 2, प्रोपर्टी नंबर -

विष्ण नगर में स्थित है. जगाधरी

वर्कशॉप, यमना नगर - 135001

**135001**, हरियाणा.

33.5 वर्ग गज, विष्णु नगर में स्थित है,

प्रोपर्टी नंबर - 2

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते की कंपनी द्वारा

सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के

दिन से 60 दिन के भीतर अद्यंतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

कपया ध्यान दें कि सरफेसी कानन की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी दारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा

किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'

बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

1217 /बी / 1. क्षेत्रफल 22 वर्ग गज.

### सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002 बकाया राशि (रू.) (डी) रु. 1,06,11,013.05/- (रुपए एक

करोड़ छह लाख ग्यारह हजार तेरह

और पांच पैसे मात्र) 05.08.2024

कृते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

(आर्सिल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट के ट्रस्टी)

प्राधिकृत अधिकारी

#### युको बैंक शाखा कार्यालयः यूको बैंक, शाहबाद

कब्जा नोटिस [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें] **जबकि,** वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं **5**4) व तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **यूक**े **बैंक, शाहबाद मारकंडा शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए अधोहस्ताक्षरी ने **मांग नोटिस दिनांकित 28.06.2024** जारी की थी जिसर जमानती श्री अरुण कुमार पुत्र श्री जसवंत लाल, पता:— 187 / 9, मोहल्ला साईदान शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा—136135 श्रीमती वीणा कुमारी पत्नी श्री जसवंत लाल {विधिक उत्तराधिकारी}, पता≔ 186 ∕ 9, मोहल्ला साईदान शाहबाद मारकंडा जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा—136135, अनीता पत्नी स्व. श्री योगेश कुमार और पुत्री राम चंदर (विधिक उत्तराधिकारी), पता:— एच.नं. 138 **हरबंशपुरा कॉलोनी, वार्ड नं. 9 बुटर पेट्रोल पंप जिला यमुना नगर, हरियाणा—135001** से नोटिस में उल्लिखित राशि दिनांक **31.05.202**4 को रु. 24,08,260.54 (रुपये चौबीस लाख आठ हजार दो सौ साठ और चौबन पैसा मात्र) (31.01.2024 तक ब्याज शामिल) को 01.02.2024 से प्रभावी आगे की ब्याज और प्रासांगिक व्ययों सहित उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जदार के राशि चुकाने में असफल रहने पर कर्जदार / जमानती और जन साधारण को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति हिर (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी

विषेश रूप से कर्जदार / जमानती तथा जन साधारण को सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किय जाता है। संपत्ति से कोई भी लेन–देन दिनांक 30.05.2024 **को रु. 24,08,260.54 (रुपये चौबीस लाख आठ हजार दो सौ साठ और चौबन** पैसा मात्र) (31.01.2024 तक ब्याज शामिल) और 01.02.2024 से प्रभावी बैंक द्वारा वहन ब्याज और प्रासागिक ब्यां के लिए युको बैंक शाहबाट मारकंदा शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों में कर्जदार

## अचल संपत्ति का विवरण

पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 65 दिनांकित 08.04.2021 जो उप पंजीयक शाहबाद (एम) जिला क्रुक्क्षेत्र द्वारा पंजीकृत किया गया, द्वार श्री योगेश कमार पत्र जसवंत लाल के नाम में मोहल्ला साईदान, तहसील शाहबाद मारकंडा, जिला करूक्षेत्र स्थित आवासीय मकान / संपत्ति एमसी संपत्ति आईडी नं. HSMCW0600492, वार्ड नं. 6, पुराना एमसी नं. 188/9, माप 98 वर्ग गज। संपत्ति की सीमाएँ निम्नवत् हैं-उत्तरः परवीन कुमार की दुकान, दक्षिणः रोड, पूर्वः सुभाष चंद की संपत्ति, पश्चिमः अरुण कुमार का मकान

# एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड (सीवाईएन — U29301HR2023PLC115705) पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 287, औद्योगिक क्षेत्र, फेज | I, इंबह्मिद्राल एस्टेट, पंचकृता—134113, हरियाणा, ईमेल : ashokemmbros.i ईमेल : info@emmforce.com | वेबसाइट : https://emmforce.com/

एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 क (राभारा आदिदक्ष लानिटक (क्रमा) क त्तरस्था का पहला धापक आग करण (एआर्ग) तानवार, उध तत्तवर, उध्क क क्या, 11:30 वर्ज विद्यों कॉन्प्रेंग (विद्यों) , अन्य ऑडियो विजयुक्त सांचर्ग (अप्रिपीएग) के माध्या से, आयोंकि क्षी जानी है, जो कि कॉर्परेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 2/202 दिनांक 5 मई 2022 और 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर रें, 3 सितंबर, 2013 (पूजाब्बा) वार्ताचन) (प्राह्मिक के जुनात के किया जिसकी के किया आयोजित की जायोजी के प्रतिकृति के प्रतिकृति के सितंबर के सुवाना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-चेन करने के लिये आयोजित की जायोजी कंपनी की पहली एजीएम लिंक इनटाइम इंडिया प्राह्मवेट लिमिटेड (लिंकइनटाइम) द्वारा उपलब्ध कराई गई वीसी, गेएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन–दे केया जा सके। सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा भाग ले सक 

गणना क जहरथ स वासा/ आएवाएम क माध्यम स उपास्थात का गणना का जाएगा। प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वितीय वर्ष 2023—2024 के लिए वित्तीय विवरण इत्यादि कंपनी के उन सभी सत्स्यों को मेंजे जाएंगे जिनके नाम 30 अगस्त, 2024 के अनुसार सदस्यों के रंजिस्टर में प्रविष्ट पाये जाते हैं और जिनके ईमेल पते, कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त प्रलेख, कंपनी की वेबसाइट www.emmforce.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और लिंकड्नटाइम की वेबसाइट www.linkitime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल–आईडी और / या बैंक विवर . गंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करें।

| क्योतिक धारिता कराजिस्त्र आर ट्रास्त्रफर एजट अधात संस्त तिक इन्तरहम इंडिया विभिन्नेट, सी 101, 247 पार्क, लाल बाहादूर शास्त्री मार्ट, सूर्व नगर, मांधी नगर, र्। पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र 400083 पर या delhi@linkintime.co.in पर ईमेल मार विधित्त हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र भेज, और ईमेल पार्व परिकृत करने व निम्नितिक्ति विवरण उपलब्ध करायें : (क) फोलियो नंबर, (ख) नाम या शेयरकार शेयर प्रमाणपत्र की प्रति (सामने और पीछे), (ध) पैन कार्ड की प्रति (स्वयं सर्त्य (अ) आधार की प्रति (स्वयं सर्व्यापित)। बैंक खाता विवरण अपडेट करने की दि निम्मितिखित अतिरिक्त विवरण / प्रतंख उपलब्ध कराये जाने की आवस्यकता है उस बैंक का नाम और शाखा जिसमें आप लागांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंव प्रकार, यो बैंक खाता संख्या, यो एमआईसीआर कोड संख्या, ड) आईएफएसर्स और थ) पहले शेयरबारक के नाम वार्त रह रिए गए थेक की प्रति |
|--|
|--|

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी (ओपी) से संपर्क करें तथा डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमेट खाता में अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

यदि आपके पास ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और ई–वोटिंग नेनुअल को www.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत देख सकते हैं या enotices@linkinti ईमेल लिख सकते हैं। आप कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री पारुल गुप्ता से भी info@emmforce.com पर संपर्क कर सकते हैं एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड

प्राधिकत अधिकारी, युको बैंक

# पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

सीआईएन : L01115HR1994PLC032244, पंजीकृत कार्यालय : ग्राम भादसों, उमरी–इंद्री रोड, तहसील : इंद्री, जनपद करनाल, हरियाणा—132109, दूरमाष संख्या : 0172—5083695 वेबसाइट : www.picagro.com; ई—मेल : piccadilygroup34@rediffmail.com

#### वार्षिक आम बैठक, बही समापन एवं ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एनटदारा सचित किया जाता है कि कंपनी की अवीं वार्षिक आम बैठक शकवार 27 सितंबर 2024 को अप 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजअल संसाधने ('ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जानी है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरिचत नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के अनुपालन में, किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित होगी।

एमसीए परिपत्र / त्रों एवं सेबी परिपत्र के निबंधनों के अंतर्गत, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित एवं पृथक्कत) सहित वित्तीय वर्ष 2023–2024 की वार्षिक रिपोर्ट (''वार्षिक रिपोर्ट'') तथा एजीएम की सचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा पहले ही प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी/यों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की वास्तविक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र . एवं सेबी परिपन्न द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में, यह अधिसूचित किया जाता है कि सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां. एजीएम के उद्देश्यार्थ शक्रवार 20 सितंबर 2024 से लेकर के बृहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी दिनांक 20 सितंबर 2024 की कट ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में अंश धारण करनेवाले सदस्यगण नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार सामान्य एवं विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है

एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार सामान्य एवं विशेष व्यवसाय का संचालन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा की जानेवाली वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।

ii) रिमोट ई-वोटिंग का आरंभ, 24 सितंबर 2024 को प्रातः 9 बजे (आईएसटी) होगा तथा समापन 26 सितंबर 2024 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) होगा।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंश प्राप्त करता है तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है तथा 20 सितंबर 2024 की कट ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा piccadilygroup34@rediffmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिये विद्यमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्यगण ध्यान दें कि (क) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दियें हैं, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, किंतु वे पुनः वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे और (ख) वह व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम की ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

v) एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.picagro.com, www.bseindia.com एवं www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

vi) यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत है, तो इसके लिये सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर सदस्यों के लिये उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टोल-फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

vii) वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में अंश हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से के माध्यम से अपने वोट डालने के लिये सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कंपनी के कंपनी सचिव से piccadilygroup34@rediffmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिये निर्गत की जा रही है तथा एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ताः / – (नीरज कुमार सहगल) स्थान : गुरुग्राम . कंपनी सचिव दिनांक : 04-09-2024

बक आंचलिक कार्यालय : पराना जी.टी. रोड दर्गा मंदिर कॉम्पलेक्स, प्रथम तल,

बस स्टैंड के पास, करनाल-132001, दूरभाषः 0184-4020154, ई-मेलः zo.haryana@ucobank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सुचना र्डएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय 22.09.2024 को अपराह्र 4:00 बजे तक

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) के तहत अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सुचना।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और <sup>...</sup> जमानती(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा यूको बैंक (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, यूको बैंक, प्रतिभृत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए 23.09.2024 को ''<mark>जहाँ है</mark> **जैसा है''. ''जो है यही है'' और ''जो कछ भी है वहीं है''** आधार पर बिक्री की जायेगी। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दिए गए वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी:-

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

बंधककर्ता के नाम सहित

| सं. | कर्जदार तथा जमानती का नाम  | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति  | तिथि⁄कब्जे की                    | तथा   | ईएमडी  | एवं समय   | तथा ई-मेल आईडी  |
|-----|--|--|----------------------------------|---|--|---|---|
|     |  | के स्वामी)   | स्थिति (भौतिक या                 | बकाया राशि  | संविदा वृद्धि राशि   |   |   |
|     |  |  | सांकेतिक)                        |   |  |   |   |
| 1.  | रोहतक (0161)   | वाणिज्यिक दुकान नं. ४, गुप्ता  |                                  | 05.05.2023<br>₹.73,09,103.43/-  | ₹. 72,46,000/-   | 23.09.2024<br>10:00 बजे पूर्वा.   | श्रीमती ऋषा मंगला,<br>मोबाइल : 9779229908                                       |
|     | मैसर्स ऋषभ टेक्सटाइल्स प्रोपराइटर<br>अशोक कुमार 2) अशोक कुमार  | मार्केट, शोरी मार्केट, रोहतक<br>(124001)   | %।<br>भौतिक                      | (31.12.2022 तक  | ₹. 20,000  | से 04:00 बजे अप.  | ई-मेल :<br>rohtak@ucobank.co.in   |
|     | खाता सं. 01610510000267, 01610610  | 011911, 01610610014981, 01610  | 25.10.2023<br>0610014752         | ब्याज सहित) + 01.01.2<br>आदि  | 2023 से भावी ब्याज ए   | रवं आकस्मिक व्यय  |   |
| 2.  | पंचकुला (1852)<br>श्रीमती रीता देवी पत्नी रविन्दर कुमार तथा<br>श्री रविन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल<br>खाता सं. 18520610011591    | आवासीय मकान माप 133.33<br>वर्ग गज, मकान नं. 872, वधवा<br>नगर, सन पार्क होटल के पीछे, जि<br>जिरक पुर में स्थित              | 01.03.2024                       | 14.12.2023<br>रु. 17,31,127.93/-<br>(30.07.2023 तक<br>ब्याज) + 31.07.2023 से<br>एवं आकस्मिक व्यय) | रु. 66,99,000/- रु. 6,69.000/- रु. 20,000 अनुबंध दर पर भावी ब्य                      | 23.09.2024<br>10:00 बजे पूर्वा.<br>से 04:00 बजे अप.<br>याज एवं अन्य मिश्रति | श्री मनोज कुमार,<br>मोबाइल : 7875257525<br>ई-मेल :<br>panchk@ucobank.co.in      |
| 3.  | जींद (2146)<br>श्री अजित कुमार पुत्र रामफल एवं श्रीमती<br>संत्रा पत्नी अजीत कुमार,<br>खाता सं. 21460610004166<br>जिला जींद में | आवासीय मकान माप 172 वर्ग<br>गज, रतन नगर कॉलोनी, जुलैना,<br>जिला जींद में स्थित और यह ए<br>सम्पत्ति सं. 3, वार्ड नं. 9 मेहम | 30.04.2024<br>एमसी जुलैना के तहत | 19.02.2024<br>रु. 18,39,509/-<br>(29.01.2024 तक<br>ब्याज) + 30.01.2024 से<br>एवं आकस्मिक व्यय)    | फ. 44,00,000/-         फ. 4,40.000/-         फ. 20,000         अनुबंध दर पर भावी ब्र | 23.09.2024<br>10:00 बजे पूर्वा.<br>से 04:00 बजे अप.<br>याज एवं अन्य मिश्रति | श्री राकेश कुमार<br>मोबाइल : 9812456634<br>ई-मेल :<br>jind@ucobank.co.in        |
| 4.  | अभ्वाला सिटी (०९१४)<br>श्रीमती रितु बजाज एवं श्री दिवन्दर बजाज<br>खाता सं. ०९१४०६१०००५७७४४<br>स्थित                            | आवासीय मकान नं.<br>1808/4080, बी-3, माप 50<br>वर्ग गज, आबादी खट्टरवाड़ा  |                                  | 11.01.2024<br>रु. 8,50,443/-<br>(29.01.2024 तक<br>ब्याज) + 30.01.2024 से<br>एवं आकस्मिक व्यय)     | रु. 9,90,000/-<br>रु. 99.000/-<br>रु. 10,000<br>अनुबंध दर पर भावी ब्य                | 23.09.2024<br>10:00 बजे पूर्वा.<br>से 04:00 बजे अप.<br>याज एवं अन्य मिश्रति | श्री अंकुर श्रीवास्तव<br>मोबाइल : 9812456634<br>ई-मेल :<br>ambaci@ucobank.co.in |

जात ऋण भारों का विवरण : जात नहीं नियम और शर्तै:

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पोर्टल में उपलब्ध/प्रकाशित हैं: https://EBKRAY.IN/

2. संपत्तियां "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बेची जा रही हैं। 3. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभृत संपत्ति का विवरण अधिकृत अधिकृत अधिकृती के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है, लेकिन अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी प्रस्ताव, चुक, गलतबयानी के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://https://EBKRAY.IN/on पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23.09.2024 को 10:00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ की जाएगी 5. प्रतिनिधि नियुक्त करने और स्वयं बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने का विकल्प बैंक के लिए खुला है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटरों को एतद्वारा सृचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। तिथि : 03.09.2024 अधिकृत प्राधिकारी, यूको बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 💋

<u>केस नं.: ओए / 626 / 2022</u>

अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम(2ए) के साथ पठित, के तहत समन ईएक्सएच. नं. 2345

आईडीबीआई बैंक

श्री जिले सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह (क्योंकि मृतक) और श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जिले सिंह

(1) श्री जिले सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह (क्योंकि मृतक) और श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जिले सिंह जिले सिंह पत्र श्री महिपाल, निवासी गाँव बंदाहेडी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा—125033 माया पाती पत्नी स्व श्री जिले सिंह निवासी गाँव बंटाहेडी तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा

विधिक सत्तराधिकारी: 2 रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा

सुरेश पुत्री स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा

कमलेश पुत्री स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा विधिक उत्तराधिकारी: 5

सुनीता पुत्री स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा विधिक उत्तराधिकारीः 6

मुकेश पुत्री स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार. हरियाणा विधिक उत्तराधिकारीः 7

सुमन पुत्री स्व. श्री जिले सिंह, निवासी गाँव बंदाहेड़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा समन

जबकि, ओए/626/2022 दिनांक <u>18.07.2024</u> को माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के समक्ष

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु.47,54,680/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध (ओए) अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन / नोटिस जारी करने के लिए संतुष्ट है (दस्तावेज आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा(4) के अनुपालन में आप, प्रतिवादी को निम्न निदेश किए जाते हैं:

(i) मांगी गई राहत क्यों न दी जाए का समन की सर्विस के तीस दिनों के अंदर कारण बताओ; (ii) मल आवेदन के क्रमांक 3ए पर आवेदक द्वारा उल्लिखित संपत्तियों और परिसंपत्तियों से इतर संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकटनः

(iii) प्रत्याभृत परिसंपत्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर उल्लिखित, विचाराधीन और संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन के निपटारन के तहत ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों से लेन-देन या निपटारन करने से आप निषिद्ध हैं:

(iv) किसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति हित किया गया है और/या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर उल्लिखित अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बिना न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके, उसके व्यवसाय के सामान्य तरीके को छोड़कर, आप हस्तांतरित नहीं करेंगे; (v) प्रत्याभृत परिसंपत्तियों या व्यवसाय के सामान्य तरीके में अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री धनराशियों का हिसाब देने और ऐसी बिक्री धनराशियों को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभति हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में अनुरक्षित खाते में जमा करना होगा।

आपको लिखित बयान दर्ज करने और इसकी एक प्रति आवेदक को देने तथा <u>12.09.2024</u> को समय सुबह 10:30 बजे पंजीयक के समक्ष हाजिर होने का भी निदेश किया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी गैर–हाजिरी में ही सुनवाई की जायेगी और निर्णय दिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांक: 19.07.2024 को दिया

समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर ऋण वसली न्यायाधिकरण चंडीगढ (डीआरटी 2)

चं**डीगढ़ संस्करण** : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा सी/ओ रेगस चंडीगढ़, हार्सेनी लेवल 4, टावर-ए, गोदरेज इटर्निया प्लॉट नं. 70, इंडिस्ट्रियल एरिया 1, चंडीगढ़-160002 से प्रकाशित एवं इम्प्रेशंस प्रिटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.-22, इंडिस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला-134115, हरियाणा से मुद्रित

#### **NOTICE INVITING TENDER HP. PWD KANGRA**

Sealed percentage rate tenders on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Division, HP: PWD, Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in HPPWD in the appropriate class for the work mentioned below on 06.09.2024 up to 11-00 A.M. and will be opened on the same day at 11-30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on any working day from 04.09.2024 to 05.09.2024 The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of FDR duly pledged in favour of Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD, Kangra.

The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 20 days.

Work No 1:- C/O Kangra Bye Pass to Matour road from km, 0/000 to 4/900) (SH:- P/L C.C. pavement at RD 2/430 to 2/449) Estimated cost: Rs. 499913/- Earnest Money Rs. 10000/-Time Limit Three Months, Cost of tender 350/-

Work No.2:- C/O Kangra Bye Pass to Matour road from km. 0/000 to 4/900) (SH:- P/L interlocking tiles at RD 2/451.80 to 2/465.70) Estimated cost: Rs. 486609/- Earnest Money Rs. 10000/-Time Limit Three Months, Cost of tender 350/-

#### TERMS & CONDITIONS:-

- 1. The contractors/firms should be registered as or/dealer under GST Act 2017.
- 2. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD
- 3. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
- 4. The contractor/firms should be quoted percentage rate in the tender failing which tender is likely to be rejected.
- 5. The Contractor/firms can obtain the tenders form without application, if they submit the copy of enlistment and earnest money in shape of FDR at the time sale of tender forms.

6. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/ application or all tenders without assigning any reason.

Kangra Division HPPWD, Kangra

1838/2024-2025

HIM SUCHNA AVAM JAN SAMPARK

**Executive Engineer** 

### JUPITER INFOMEDIA LIMITED

CIN: L22200MH2005PLC152387 Regd. Off.: 336 Laxmi Plaza, Laxmi Indestate, New Link Road, Andheri West, Mumbai-400053 Email: jupiter@iimtrade.com Web: www.jupiterinfomedia.com TEL: 91-22-26341691

#### ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting ("AGM") of Jupiter Infomedia Limited ("the Company") will be held on September 30, 2024 at 12.30 p.m. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business specified in the Notice convening the AGM. The AGM is being held in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Circulars issues by Securities and Exchange Board of India (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred to as "Circulars" hereinafter)

In compliance with the abovementioned Section, Rules and Regulations, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 02/2022 dated May 5,2022 (collectively referred as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 ("SEBI Circulars"), permittec holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a commor venue. In compliance with the provisions of the Act, Listing Regulations, MCA Circulars and SEBI Circular, the AGM will be held through VC/ OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be available on the website of the Company, i.e. www.jupiterinfomedia.com and websites of the Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of the National Securities Depository Limited at evoting@nsdl.co.in. Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only. The instruction for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM

If Member's email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting is provided in the Notice of the AGM and it will be sent on the registered email address of the Member Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of Shares held in electronic from with the depositories through their Depository Participant(s) and respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financia District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi, Telangana– 500 032, Tel. +91 40 6716 2222, 9985633254, Email. mohammed.shanoor@kfintech.com.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company / Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date, i.e. Monday, September 23, 2024, such member may obtain the User ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote. Further, details relating to updation of email address, bank details and mobile number you may

The Company is also providing the facility to Members to temporarily register their e-mail ID for receiving the AGM Notice & Annual Report in electronic mode by clicking the link s://iupiterinfomedia.com/subscribannualreport.htmPost successful registration of the E-mai ID, the Members as on the cut-off date would get soft copy of the AGM Notice & Annual Report and the procedure for e-voting along with login ID and password to enable e-voting.

Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited

CIN- L51216WB1992PLC055629 Regd. Office: HB – 170, Sector – III, Salt Lake, Kolkata – 700 106

Ph.: 033-2334 4148, E-mail: info@kaushalya.net

Website: www.kaushalya.net

NOTICE OF THE 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND

E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 27th September, 2024, at 02:00 P.M. through

Two-Way Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the

businesses as set out in the Notice of AGM dated 28th August, 2024, without the physical presen

of the members at a common venue in compliance with various Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") collectivel

referred to as "Circulars"). The deemed venue for the AGM shall be deemed to be the

Registered Office of the Company. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be

counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

The Notice of the AGM along with Annual Report 2023-24 has been sent by electronic mode only to those members whose name appeared in the Register of Member or list of Beneficial Owne

as on August 23, 2024 and whose email address(s) are registered with the Company The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be made available

on the Company's website at www.kaushalya.net, website of the Stock Exchanges i.e. BSE

Limited at <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange of India Limited at <a href="www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"), the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), the

Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast votes electronically (votes

prior to and during the AGM) in respect of the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2024 to September 27, 2024 (both days inclu

purpose of the AGM; Members holding shares either in physical form or demat form as of **cut-off date** i.e

Friday, September 20, 2024 may cast their votes from the electronic voting system o

The remote e-voting period begins on September 24, 2024 at 9:00 A.M. and ends on

September 26, 2024 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL

The Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and once the Vote is

casted on a resolution set out in notice by a member through E-voting, he / she shall not be

allowed to change it subsequently and such votes, which has been casted through remote

The Manner of casting votes has been provided in the Notice of the AGM; Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and

holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password by following the process and instruction as mentioned in the Notice; Incase a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on

or before the cut-off date for remote e-voting, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the user ID and password by sending a

For Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited

Whole-time Director & Company Secretary

Saniav Lal Gupta

In case of any gueries relating to e-voting and/or attending the AGM through VC/OAVM facility mbers/ beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) available a

agency for providing the Remote e-Voting facility at www.evoting.nsdl.com.

For this purpose, the Company has availed the services of NSDL

request at evoting@nsdl.co.in or rta@cbmsl.com.

www.evoting.nsdl.com or may Email at evoting@nsdl.co.in

Members are hereby informed that:

for voting thereafter

Place: Kolkata

For Jupiter Infomedia Limited Umesh Vasantlal Modi

Managing Director DIN: 01570180

Place : Mumbai

("the Act")

Date : September 3, 2024

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala - 147001 Corporate Identity No. U40109PB2010SGC033813, Website: www.pspcl.in (Contact no. 96461-20640)

Chief Engineer / O&M (P&P Cell-1), GHTP, Lehra Mohabbat, invites E-tender for the Procurement of M.S. ERW Pipes, Quantity as per NIT. For detailed NIT & tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 02-09-2024 from 17:00 hrs. onwards

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

GHTP-76/24 76155/12/3385/2023/37231

**Dhanlaxmi**Bank

Regional Office: 10185A, 1st Floor, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Ph:011-28757336 / 28757338 Corporate Office: Thrissur

Branch Office, 118 G T road Basti Adda Near Hanuman Temple Jalandhar Punjab 14400 Ph: +91 998917 73879/98733 15643

Date: 02-09-2024

#### NOTICE OF E- AUCTION OF GOLD JEWELLERY

Whereas the below mentioned borrowers have been issued notices to pay the outstanding amounts towards loans against gold items (loans) availed by them from Dhanlaxmi Bank Ltd (Bank). Since the borrowers have failed to repay the dues in their loans, the Bank is constrained to conduct an auction of the pledged gold items described below by way of Online Electronic Bidding (E-auction) through HTTP://GOLD.SAMIL.IN etween 12 pm to 3:30 pm on 12th September 2024 on "As-is-where-is' and 'As-is-what is' basis', condition without any guarantee, explicit or implied, on the purity or weight or any matter connected therewith, at the sole discretion of the Bank, for recovery of the dues o the Bank. The Bank reserves the right remove any of the following accounts from the auction and also to change the auction date and time without any prior intimation.

| lame of Borrower/s  | Loan Account No.  | Amount due (Rs.)  |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Sourav Sondhi   | 022056100000384   | Rs.2,14,037/- as on 02/09/2024  |  |  |
| Sourav Sondhi   | 022056200005506   | Rs.2,29,384/- as on 02/09/2024  |  |  |
| For further information with regard to weight, purity, minimum expected price, detailed terms and conditions and getting registered to participate in the auction etc., the interested  |   |   |  |  |
| bidders may login to the aforesaid website or contact the auction portal / the Bank. If the auction does not get completed on the same day due to time limit or for any other reasons, the Bank reserves the right to conduct the auction within 7 working days from the date of  |   |   |  |  |
| Auction or any date at the discretion of the Bank on the same terms and conditions by publishing the date and time of such action in the notice board of the Bank. If the borrower is deceased, all the terms of the auction shall be applicable to his legal heirs also. The Borrower's shall have right to redeem their pledged gold items till the date of auction only. |   |   |  |  |
|   | ourav Sondhi ourav Sondhi er information with re l conditions and gettin lay login to the afores es not get completec reserves the right to o r any date at the dis- g the date and time of | ourav Sondhi 022056100000384 ourav Sondhi 022056200005506 or information with regard to weight, purity, conditions and getting registered to particip, iay login to the aforesaid website or contact bees not get completed on the same day due treserves the right to conduct the auction wit or any date at the discretion of the Bank on or the date and time of such action in the notice |  |  |

**Authorised Signatory** 

#### MONTE CARLO FASHIONS LIMITED

(CIN: L51494PB2008PLC032059) Registered Office: B-XXIX-106, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-14100 Tel.: 91-161-5048610-40, Fax: 91-161-5048650 Website: www.montecarlocorporate.com E-mail: investor@montecarlocorporate.con

#### ADDENDUM TO THE NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is in reference to the Notice dated August 5, 2024 (16th AGM Notice) along with Annual report for the FY 2023-24 sent to all the Members on August 27, 2024 for convening the 16th Annual Genera Meeting ('AGM') Scheduled to be held on Monday, September 23, 2024 at 11:00`A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audic Visual Means (OAVM) and subsequent public notice in relation to the 16th AGM published in Newspaper on August 29, 2024.

Subsequent to issuance of the aforesaid 16th AGM notice dated August 5, 2024, the company has received in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 13 of the Companies Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, from a Member proposing the candidature of Dr. Prem Lata Singla (DIN: 09674172) for the office of a Director of the Company. Accordingly, the roposal for appointment of Dr. Prem Lata Singla as an Independen Director of the Company shall be taken up for consideration by the Members of the Company at the ensuing 16th AGM as a part of Specia Business, in the form of Special Resolution at item no. 10

n this regard, company has sent an Addendum to the Notice of 16th AGM on August 30, 2024 electronically to all the members. This addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated August 5, 2024 and the notes provided therein circulated to the Members. The said addendum to the Notice of AGM is available on the website of the Company at www.montecarlocorporate.com, websites of he Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of ndia Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and website of CDSL at www.cdslindia.com and vww.evotingindia.com.

Members may note that the aforesaid proposal for appointment of Di Prem Lata Singla as an independent Director would be included in the remote e-voting facility commencing on Friday, September 20, 2024 a 09.00 a.m. and ending on Sunday, September 22, 2024 at 05.00 o.m.(both days inclusive) and in e-voting during the AGM. All the processes, notes and instructions relating to remote e-voting and evoting during the 16th AGM as well as the process of attending the 16th AGM through VC/OAVM as set out in the 16th AGM Notice dated August 5, 2024 shall mutatis-mutandis apply to the Resolution proposed in this Addendum to the Notice. Furthermore, the Scrutinizers appointed for the ensuing 16th AGM will act as Scrutinizers for the Resolution proposed i this Addendum to the Notice of 16th AGM.

For MONTE CARLO FASHIONS LIMITED

(ANKUR GAUBA) Place: Ludhiana COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER ICSI Membership No. F10577

TTI ENTERPRISE LIMITED

## (CIN: L67120WB1981PLC033771

ered Office : Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata - 700001 Contact Details : +91 9460844169 Website : www.ttienterprises.com, Email Address: tti1711@gmail.com

# NOTICE OF THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of TTI ENTERPRISE LIMITED will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11.00a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAW) (transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the nnual Report along with Notice convening AGM on 3rd September, 2024 throug lectronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Depositor Participant(s),/ Company's Registrar & Share Transfer Agent, Niche Technologies Private Limited, ("RTA"), in accordance with the pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April, neral Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 202 and 20/2021 dated 8th December, 2021 and 3/2022 dated 5th May, 2022 and 11/2023 and 20/20/21 dated 8th December, 2021 and 3/2022 dated 5th May, 2022 and 11/20/22 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Annual Report along with the Notice convening the 43rd AGM is also available on the website of the Company www.ttienterprises.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited a

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companie Act. 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remai closed on 24th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the

ursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companie Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the lecurities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast the ote electronically through e-voting services provided by the RTA on all resolutions as se forth in the AGM Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to the equi hares held by them in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on 23r September, 2024 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Friday, 27th September, 2024 at 9.00 a.m and will end on **Sunday, 29th September, 2024 at 5.00 p.m.** During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwi not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may alsa attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote:

Members holding Shares in physical Form who have not registered their email address ar requested to register their email addresses with respective depository participants and ar requested to update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfe Agent, Niche Technologies Private Limited, temporarily update their email address by accessing the link https://www.nichetechpl.com/email-and-phone-updation/ for updating of e-mail ID and contact number and obtain Notice, Annual Report 2023-2024 and/or log tails for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting.

Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, Manner of casting vote through Remote e-voting or e-voting during AGM.

Any query or grievance in relation to voting by e-voting can be addressed to the NSDL of Registrars of the Company **Niche Technologies Private Limited** can be forwarded email: evoting@nsdl.co.in or nichetechpl@nichetechpl.com.

Chandra Parkash Singl

Place : Chennai Date: September 03, 2024

Form No. INC-26

(Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014 Advertisement to be published in the Newspaper for change of registered office of the Auto International (India) Private Limited from Ludhiana city falling in State of Punjab to Gurugram city (Pin Code 122418) falling in State of Haryana.

#### **Before the Central Government** Northern Region, Delhi

In the matter of Sub-section(4) of the Section 13 of Companies Act, 2013 and Clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of Auto International (India) PRIVATE LIMITED Registered Office C 27, Phase IV, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141010

Notice is hereby given to the general public that the above named petitioner Company propose to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 before the Regional Director, Northern Region, Delhi seeking confirmation to the proposed alteration to Clause I Situation Clause) of its Memorandum of Association so as to change its Registered Office from the "PUNJAB" to the State of " HARYANA " in the terms of Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th August, 2024 at its Registered Office.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the Memorandum of Association of the Company may deliver either on the MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Compliant form or cause to be delivered or send by registered post his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the Regional Director, Northern Region, Delhi within 14 Days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at 57-58, K.M. Stone, Delhi - Jaipur Highway, Binola, Near Panchgaon Chowk, Gurgaon (Haryana) INDIA PIN - 122418.

For Auto International (India) Private Limited

Amit Dhingra (Director

**DIN:** 00909400

Date: 04.09.2024 Place: Ludhiana

**EMMFORCE AUTOTECH LIMITED** (CIN - U29301HR2023PLC115705) Regd. Office: Plot No. 287, Industrial Area, Phase II, Industrial Estate Panchkula-134113 Haryana Email: ashok@emmbros.in Email: info@emmforce.com | Website: https://emmforce.com/

Email: info@emmforce.com | Website: https://emmforce.com |
PUBLIC NOTICE OF CONVENING 1 ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM
The 1st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Emmforce Autotech Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with General Circular Nos. 20/2020 Dated 5th May 2022,2/2022 dated 5th May 2022 and 10/2022 dated 28th December 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Servicia and Service Report of the Company Repor

dated 13th May 2022 and Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice Dated 3rd September, 2024, calling the AGM. The members can then 1st AGM of the Company will be held through VC / OAVM facility provided by Link Intime India Pvt. Ltd. ("Linkintime") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The members can attend and participate in the AGM only through VC / OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2023-2024, etc. will be sent to all the Members of the Company whose name appears, in the Register of Members as on August 30, 2024 and whose email addresses are registered with the Company J Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.emmforce.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Inkintime at www.linkitme.co.in. Members who have not registered their email-id and/or Bank details are requested to register the same by following the procedure given below.

website of Linkinitime at www.linkinne.co.in. well not register the same by following the procedure given below.

In case Physical Holding Send a duly signed request letter to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. at, C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083 or email at delhi@linkintime.co.in and provide the following details for registering email address: (a) Folio No., (b) Name or shareholder, (c) Copy of the share certificate (front and back), (d) Copy of PAN card (self attested), (e) Copy of AADHAR (self attested) Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account Detail: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, (b} the Bank Account type, (c) Bank Account Number (d) MICR Code Number (e) IFSC Code, and (n Copy of the cancelled cheque bearing

the name of the first shareholder

Please contact your Depository Participant (OP) and register your en address in your demat account, as per the process advise by your DP. n case Demat Holding

n case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions "FAQs") and e-voting manual available at www.linkintime.co.in under help section or write an email to notices@linkintime.co.in. You may also contact Ms. Parul Gupta, Company Secretary of the Company a

By order of the Sd/- (Ashok Mehta Managing Directo

**曾UCO BANK** 

Zonal Office: Old G.T. Road Durga Mandir Complex, First Floor, Near Bus Stand, Karnal-132001, Ph. 0184-4020154, E-mail: zo.haryana@ucobank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 22.09.2024 UPTO 4:00 PM

E-Auction Sale Notice of Immovable Assets under the Securitisation & Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI) read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantror(s) that the below described

immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Symbolic/Physical Possession** of which has been taken by the Authorized Offcer of UCO Bank (Secured Creditor), will be Sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 23.09.2024, for recovery of dues of UCO Bank, the Secured Creditor. The sale will be done by the undersigned through e auction platform provided at the Web Portal given below:

## SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS

|     |                                | Description of Property along | Possession Date/          | Demand Notice      | Reserve Price    | Date and      | Name of              |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Sr. |                                | with name of mortgagor        | Status of possession      | 2410 4             | EMD              | Time of       | Contact Person,      |
| NO. | & Guarantor/ Branch Office     | (owner of the property)       | (Physical or<br>Symbolic) | Outstanding        | Bid Increase     | Auction       | & E-mail ID          |
|     |                                |                               | Symbolic)                 | Amount             | Amount           |               |                      |
| 1.  |                                | Commercial shop no.           | Symbolic                  | 05.05.2023         | Rs.7246000/-     | 23.09.2024    | Mrs. Risha Mangla ,  |
|     | M/S Rishabh Textiles (Prop.    | 4 Gupta Market                | 06.07.2023                | Rs. 7309103.43/-   | Rs.724600/-      | 10:00 AM to   | Mob: 9779229908,     |
|     | Ashok kumar) and Ashok kumar   | Shori Market , Rohtak         | Physical                  | (interest upto     | Rs.20,000/-      | 04:00 PM      | Email:               |
|     | so prem chand A/c no:          | <u> </u>                      | 25.10.2023                | 31.12.22)+future   |                  | cidental      | rohtak@ucobank.co.in |
|     | 01610510000267, 016106100119   | 911, 01610610014981& 016      | 10610014752               | expenses w.e.f.    | 01.01.2023       |               |                      |
| 2.  | Panchkula (1852)               | Residential house             |                           | 14.12.2023         | Rs.6699000/-     | 23.09.2024    | Mr. Manoj Kumar      |
|     | Mrs. Rita devi wo Ravinder     | measuring 133.33 sq           | 01.03.2024                | Rs. 1731127.93/-   | 1 (0100000)      | 10:00 AM to   | Mob: 7875257525,     |
|     | kumar and Mr. Ravinder so      | yards bearing House no.       | 872 , situated at         | (with interest     | Rs.20,000/-      | 04:00 PM      | Email:               |
|     | roshan lal A/c no:             | wadhwa nagar , behind         |                           | upto 30.07.23)+f   |                  |               | panchk@ucobank.co.in |
|     | 18520610011591                 | Zirakpur panchkula road , Zi  | rakpur.                   | rate w.e.f 31.07.2 | 23 and other mi  | sc. & incider | ital expenses etc.   |
| 3.  | Jind (2146)                    | The Residential house         |                           | 19.02.2024         | Rs.4400000/-     |               | Mr Rakesh kumar      |
|     | Mr. Ajit Kumar S/O Ramphal     | measuring 172 sq yards        | 30.04.2024                | Rs. 1839509/-      | Rs.440000/-      | 10:00 AM to   | Mob: 9812456634,     |
|     | and Mrs. Santra W/O Ajeet      | situated at Rattan Nagar co   | lony, Julana, Distt       | (with interest     | Rs.20,000/-      | 04:00 PM      | Email:               |
|     | Kumar, <b>A/c no:</b>          | Jind and the same under       | MC Julana vide            | upto 29.04.24)+f   | uture interest a | t contract    | Jind@ucobank.co.in   |
|     | 21460610004166                 | property no. 3, ward no.      | 9, Meham Road,            | rate w.e.f 30.04.2 | 24 and other mi  | sc. & incider | ital expenses etc.   |
|     | Tehsil Julana, Distt. Jind.    |                               |                           |                    |                  |               |                      |
| 4.  | Ambala city (0914)             | The Residential house         | Symbolic                  | 11.01.2024         | Rs.990000/-      | 23.09.2024    | Mr Ankur shrivastava |
| 1   | Mrs. Ritu bajaj & Mr. Davinder | bearing no. 1808/4080 ,B-     | 14.03.2024                | Rs. 850443/-       | Rs.99000/-       | 10:00 AM to   | Mob: 9695196733,     |
|     | bajaj <b>A/c no</b> :          | 3,Measuring 50 sq. yards      | situated at Abadi         | (with interest     | Rs.10,000/-      | 04:00 PM      | Email:               |
|     | 09140610005743                 | Khattarwara , Ambala city     |                           | upto 29.01.24)+f   |                  |               | ambaci@ucobank.co.in |
|     |                                | •                             |                           | rate w.e.f 30.01.2 | 24 and other mi  | sc. & incider | ital expenses etc.   |
| Tor | Torms and condition:           |                               |                           |                    |                  |               |                      |

Terms and condition:

1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Detailed terms and conditions of

) https://EBKRAY.IN/

The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer

but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https:// https://EBKRAY.IN/on Dt. 23.09.2024 and starts at 10.00 am.

5. It is open to the Bank to appoint a representative and to make self-bid and participate in the auction STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The borrower/guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction failing which the property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date : 03 09 2024 Place :- Karnal **AUTHORISED OFFICER, UCO BANK** 

# **ELNET TECHNOLOGIES LIMITED**

CIN: L72300TN1990PLC019459
Registered office: Elnet Software City, TS 140, Block No.2 & 9, Rajiv Gandhi Salai, Taramani, Chennai - 600 113
Phone No.: 91 - 44 - 2254 1791/93; Fax: 91 - 44 - 2254 1955 E-mail: elnetcity@gmail.com; website: www.elnettechnologies.com

NOTICE OF 33<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Elnet Technologies Limited will be held on Wednesday, September 25, 2024 at 11.00 A.M Indian Standard Time ("IST") through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of 33rd AGM in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent its vite its General includar twis — in 2020 dated April 1, 2020 and in 17202 dated april 1, 2020 dated Ap In compliance with the MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC /OAVM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the 33rd Annual Genera Meeting held on Wednesday, the 25th day of September 2024 at 11:00 A.M. of Company.

The Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of our Company will be displayed.

The Notice of AGM along with the Annual Report 2023-24 has been sent on Tuesday, September 03, 2024, only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories and also will be available on the Company's website www.elnettechnologies.com and website of Stock exchange www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide aforesaid relevant circulars. MANNER OF REGISTERING/UPDATING E-MAIL ADDRESS:

) Members holding shares in physical who have not registered their e-mail addresses/Mobile number are requested to visit https: 1/investors.cameoindia.com for registering the same to receive the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 electronically

b) Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their Depository Participant.

Members may kindly refer to the Notice of the AGM for detailed guidelines in this regard.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility (Remote e-voting before AGM and e-voting during 33"AGM.) The members

Members holding shares either in physical/dematerialised as on the cut-off date Tuesday, September 17, 2024, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the notice of AGM through electronic voting system of CDSL (www.evotingindia.com) The Remote e-voting facility will be available during the following voting period

| Commencement of remote e-voting  | From 9.00 A.M. (IST) on Friday, September 20, 2024 |  |  |
|--|--|--|--|
| End of remote e-voting   | To 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, September 24, 2024  |  |  |
| Members may participate in the AGM even after exercising their right to yote through remote e-voting but shall not be allowed to yote again at the AGM. In case, if a member, cast his yote in remote e- |  |  |  |

voting as well as through e-voting at the AGM, the vote cast through remote e-voting only shall be considered. Any person who acquires shares of the Company after the dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date Tuesday, September 17, 2024, are requested to refer the e-voting instruction: available on the website of the company

Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, September 18, 2024, to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 33" AGM and payment of dividend for the Financial Year ended March 31, 2024. The dividend for the Financial Year ended March 31, 2024, is Rs. 1.70/- per equity share (Face Value of Rs.10/- each) as recommended by the Board of Directors, if declared, at the 33d AGM, will be

credited/dispatched within the timeline specified in the respective rules and amended from time to lime to such shareholders whose names appear in Register of members and beneficiary position maintained by the Depositories as on Tuesday, September 17, 2024. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly to their bank accounts through electronic clearing services or any other means, car

register the same by sending the details of copy of PAN card and cheque to our Registrar and Share Transfer Agent M/s. Cameo corporate services limited: For detailed clarifici required in this regard if any, the shareholders are requested to contact Mrs. Kandhimathi via e-mail kandhimathi@cameoindia.com and (044-40020728). The Company has appointed M/s. BP & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer (Entity ID: 83104) for the e-voting process (i.e., remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner. The results of voting including remote E-voting will be declared within the stipulated time and will also be posted on the website of Company, CDSL and BSE.

For any queries/grievances or issues regarding attending the 33" AGM and remote e-voting, from the CDSL e-Voting System and all grievances connected with the facility for voting by electronic means, may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, AWing, 25 Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800225533. IOINING THE AGM THROUGH VC/OAVM: Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through e-voting website at www.evotingindia.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of the AGM.

> For ELNET TECHNOLOGIES LIMITED Ritesh Shivkumar Mishra



Company Secretary